



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 19] नई दिल्ली, शनिवार, मई 11—मई 17, 2013 (वैसाख 21, 1935)
No. 19] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 11—MAY 17, 2013 (VAISAKHA 21, 1935)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 22 अप्रैल 2013

सं. आरएस./46/2013/33-कार्मिक--राज्य सभा टेलीविजन चैनल में संयुक्त निदेशक (प्रशासन) के पद पर प्रतिनियुक्त संयुक्त निदेशक श्री अजय कुमार मल्लिक की सेवाएं राज्य सभा टेलीविजन चैनल से 22 अप्रैल, 2013 (अपराह्न) से समाप्त कर दी गई हैं और उन्हें तत्काल प्रभाव से राज्य सभा सचिवालय को प्रत्यावर्तित कर दिया गया है।

एस. रंगराजन, संयुक्त निदेशक

दिनांक 26 अप्रैल 2013

सं. आरएस.-42/2/2013/35-कार्मिक--राज्य सभा टेलीविजन चैनल में संयुक्त निदेशक (प्रशासन) के पद से 22.04.2013 (अपराह्न) को संप्रत्यावर्तित होने के फलस्वरूप तथा 23.04.2013 को 01 दिन का अर्जित अवकाश लेने और 24.04.2014 को अवकाश होने के कारण,

श्री अजय कुमार मल्लिक, संयुक्त निदेशक ने 25 अप्रैल, 2013 के पूर्वाह्न से इस सचिवालय में कार्यभार ग्रहण कर लिया।

एस. रंगराजन, संयुक्त निदेशक

योजना आयोग

(भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 18 अप्रैल 2013

सं. ए-19012/66/12-यू. आई. डी. ए. आई--भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, योजना आयोग, नई दिल्ली के दिनांक 31 जनवरी, 2013 के पत्र सं. ए-11016/48 (दिल्ली डाटा सेन्टर) 11/यू आई डी ए आई और भारतीय पुनर्वास परिषद्, नई दिल्ली के दिनांक 16.04.2013 के कार्यालय आदेश सं. 6-32/98-आर सी आई/8185 के अनुसरण में श्री मुंशी प्रसाद गुप्ता ने दिनांक 17.04.2013 (पूर्वाह्न) से दिल्ली डाटा केन्द्र, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, दिल्ली में 9,300--34,800/- के वेतन बैंड + 4,800/- रुपये के ग्रेड वेतन में प्रतिनियुक्ति आधार पर तीन वर्ष की अवधि हेतु या अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, तकनीकी अधिकारी के पद का कार्यभार संभाल लिया है।

राजेश कुमार, उप-निदेशक (स्थापना)

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 11 अप्रैल 2013

सं. 12014/2/2009-आईएसएस--राष्ट्रपति, भारतीय सांख्यिकी सेवा के निम्नलिखित परीक्षकों को 15.02.2013 से सेवा के कनिष्ठ समयमान में स्थायी रूप से नियुक्त करते हैं:-

क्रम सं. नाम

1 2
(सर्वश्री/श्रीमती/कुमारी)

1. सर्वदानंद बर्नवाल
2. अविशोक गुहा
3. संदीप मजूमदार
4. सुदीप्त घोष
5. जोस कुरियन
6. अमरेंद्र प्रताप सिंह
7. अविशोक पोद्दार
8. बादल कुमार
9. चंद्रजीत चटर्जी
10. मोनामी मित्रा
11. सोनिया शर्मा
12. सौम्या रॉय
13. सीमा मिश्रा
14. पाटिल शिवाजी नरसू
15. रोहित मौर्य
16. संतोष कुमार गुप्ता
17. विष्णु राज जी
18. राजीव प्रियदर्शी
19. निधि सतीजा
20. मीरा ए पी
21. क्रतिका मित्तल
22. ज़िया उल हक
23. राम प्रताप
24. राम सजीवन
25. शक्ति सिंह
26. राम निवास रनवा

1 2

(सर्वश्री/श्रीमती/कुमारी)

27. उमेश कुमावत
28. मनोज कुमार वर्मा
29. अचेन्नारो

वेंकटरामन आर. हेगड़े, निदेशक

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

विधि साहित्य प्रकाशन

नई दिल्ली, दिनांक 15 अप्रैल 2013

सं. ए.-12023/4/2006-वि.सा.प्र. (प्र.)--सचिव, श्री त्रिलोक चन्द, कारबार कार्यपालक, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, विधि साहित्य प्रकाशन को, तारीख 11 अप्रैल, 2013 पूर्वाह्न से छः मास की अवधि के लिए या पद के नियमित आधार पर भरे जाने तक, जो भी पहले हो, वेतन बैंड-2, वेतनमान 9,300--34,800/- रुपए जमा ग्रेड वेतन 4,600/- रुपए में तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप में सहायक प्रबंधक नियुक्त करते हैं।

2. श्री त्रिलोक चन्द, की उपर्युक्त नियुक्ति से वे न तो सहायक प्रबंधक के ग्रेड में अपनी ज्येष्ठता का कोई दावा कर पाएंगे और न ही उनके द्वारा उस पद पर की गई सेवा को सहायक प्रबंधक के पद पर उनकी नियमित आधार पर नियुक्ति के लिए गणना में लिया जाएगा।

जितेन्द्र चड्ढा, अवर सचिव

दिनांक 23 अप्रैल 2013

सं. ए.-12025/1/2009-वि.सा.प्र. (प्र.)--सचिव, श्री महीपाल सिंह, सहायक (तकनीकी), विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, राजभाषा खण्ड को, तारीख 30 अप्रैल, 2013 पूर्वाह्न से तारीख 29 अक्टूबर, 2013 (अपराह्न) तक छः मास की अवधि के लिए या पद के नियमित आधार पर भरे जाने तक, जो भी पहले हो, वेतन बैंड-2, वेतनमान 9,300--34,800/- रुपए जमा ग्रेड वेतन 4,600/- रुपए में तदर्थ आधार पर विधि साहित्य प्रकाशन, विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय में स्थानापन्न रूप में उप-संपादक नियुक्त करते हैं।

2. श्री महीपाल सिंह, की उपर्युक्त नियुक्ति से वे न तो उप-संपादक के ग्रेड में अपनी ज्येष्ठता का कोई दावा कर पाएंगे और न ही उनके द्वारा उस पद पर की गई सेवा को उप-संपादक के पद पर उनकी नियमित आधार पर नियुक्ति के लिए गणना में लिया जाएगा।

जितेन्द्र चड्ढा, अवर सचिव

विधि कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 22 अप्रैल 2013

सं. ए.-12023/21/99-प्रशा.-III (वि.का.)--आयकर अपीलीय अधिकरण के न्यायिक सदस्य श्री के. एस. एस. प्रसाद राव, आयकर अपीलीय अधिकरण सदस्य (भर्ती और सेवा शर्तें) नियम, 1963 के

नियम 11 के अनुसार, अधिवर्षिता की आयु होने पर दिनांक 11 मार्च, 2013 के अपराह्न को सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए हैं।

डी. चौधरी, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 26 अप्रैल 2013

सं. ए.-32012/7/2012-प्रशा.-I (वि.का.)--संघ लोक सेवा आयोग की संस्तुति पर, राष्ट्रपति, निम्नलिखित उप विधि सलाहकारों (भारतीय विधि सेवा के विधि सलाहकार सेवा संवर्ग का ग्रेड-III) को दिनांक 23 अप्रैल, 2013 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय में वेतन बैंड-4 (रु. 37,400--67,000/-) में रु. 8,700/- ग्रेड वेतन सहित नियमित आधार पर अपर विधि सलाहकार के पद (भारतीय विधि सेवा के विधि सलाहकार सेवा संवर्ग का ग्रेड-II) पर नियुक्त करते हैं:-

- (i) श्री एस. आर. मिश्र
- (ii) श्रीमती जोया हाडके
- (iii) श्री जी. सी. मिश्र
- (iv) श्री जी. एस. यादव
- (v) श्री एम. एस. तारिक

रवीन्द्र कुमार, उप सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 22 अप्रैल 2013

सं. आई.-14011/5/2012-आईपीएस.-1 (I)--भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 7 के उप-विनियम (3) में निहित उपबंधों का प्रयोग करते हुए संघ लोक सेवा आयोग ने दिनांक 15.04.2013 को चयन समिति की दिनांक 22.02.2013 की बैठक में इसके द्वारा बनाई गई 2011 की उस चयन सूची को अनुमोदित कर दिया है जिसमें भारतीय पुलिस सेवा के मध्य प्रदेश संवर्ग में कुल 6 मौलिक रिक्तियों को भरे जाने हेतु मध्य प्रदेश पुलिस सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों का नाम शामिल किया गया है:-

चयन सूची-2011

क्रं. सं.	नाम	जन्म तिथि
	(सर्व/श्री)	
1.	प्रेम बाबू शर्मा	22.01.1958
2.	अवध किशोर पाण्डेय	15.02.1961
3.	आर. ए. चौबे	01.03.1960
4.	मनोहर सिंह वर्मा	09.06.1960
5.	रवि शंकर देहरिया	24.08.1961
6.	संजय तिवारी	05.06.1966

प्रशान्त निकम, निदेशक (पुलिस)

सं. आई.-14011/5/2012-आईपीएस.-1 (II)--राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) के साथ पठित भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) विनियम, 1954 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्य प्रदेश राज्य पुलिस सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को भारतीय पुलिस सेवा में परिवीक्षा पर नियुक्त करते हैं तथा उन्हें भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) विनियम, 1954 के विनियम 5 के उप-विनियम (1) के अन्तर्गत मध्य प्रदेश संवर्ग प्रदान करते हैं:-

चयन सूची-2011

क्रं. सं.	नाम	जन्म तिथि
	(सर्व/श्री)	
1.	प्रेम बाबू शर्मा	22.01.1958
2.	अवध किशोर पाण्डेय	15.02.1961
3.	आर. ए. चौबे	01.03.1960
4.	मनोहर सिंह वर्मा	09.06.1960
5.	रवि शंकर देहरिया	24.08.1961
6.	संजय तिवारी	05.06.1966

3. यह नियुक्तियाँ अधिसूचना के जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगी।

प्रशान्त निकम, निदेशक (पुलिस)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 15 अप्रैल 2013

सं. I-18011/03/2013-आईपीएस.-IV--राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय पुलिस सेवा के तमिलनाडु संवर्ग के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नामों के सामने दर्शाई गई तारीखों से भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी करते हैं:-

क्रं. सं.	आईपीएस परिवीक्षाधीन अधिकारियों के नाम	स्थायी किए जाने की तारीख
1	2	3
	सर्वश्री/सुश्री	
1.	अभिनव कुमार	21.12.2011
2.	जिआउल हक	31.08.2011
3.	दिशा मित्तल (सुश्री)	31.08.2011
4.	एन. हरीश	31.08.2011
5.	सी. विजय कुमार	31.08.2011
6.	एम. दुरई	31.08.2011
7.	जे. महेश	21.12.2011

1	2	3
	सर्वश्री/सुश्री	
8.	जी. धर्मराजन	31.08.2011
9.	सिबि चक्रवर्ती एम. आर	31.08.2011

अरविंद गौड़, अनुभाग अधिकारी (आईपीएस-IV)

दिनांक 26 अप्रैल 2013

सं. 1-14012/01/2012-आई.पी.एस.-IV--राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा के राजस्थान संवर्ग के परिवीक्षाधीन अधिकारी, सुश्री देवांगी स्वर्णकर, जिन्हें सिविल सेवा परीक्षा, 2010 में अर्हता प्राप्त करने के आधार पर भारतीय पुलिस सेवा में नियुक्त किया गया था, के सिविल सेवा परीक्षा,

2011 में अर्हता प्राप्त करने के आधार पर, उनके भारतीय राजस्व सेवा में नियुक्ति के लिए चयन होने पर दिनांक 01.09.2012 (अप्रा.) से भारतीय पुलिस सेवा से उनका तकनीकी त्यागपत्र स्वीकार करते हैं।

अरविन्द गौड़, अनुभाग अधिकारी (आई.पी.एस.-IV)

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 18 अप्रैल 2013

सं. 13017/8/2012-अ.भा.से. (I)--भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 6 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मणिपुर, त्रिपुरा तथा उत्तराखंड सरकारों की सहमति से केन्द्र सरकार, श्री एम. एच. खान, भा.प्र.से. (मणिपुर-त्रिपुरा : 88) की मणिपुर-त्रिपुरा संवर्ग से उत्तराखंड संवर्ग में अंतर संवर्गीय प्रतिनियुक्ति को एक वर्ष की अवधि तक बढ़ाने के लिए एतद्वारा अनुमोदन प्रदान करती है।

एस. एस. शुक्ला, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 15 जनवरी 2013

सं. क्यू/पीए.-I/06/2013--राष्ट्रपति जी, निम्नलिखित अधिकारियों, जो वर्तमान में भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (जेएजी) में हैं, को उनके नाम के समक्ष दर्शाई गई तारीख से इसी सेवा के ग्रेड-IV में स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं:-

क्र. सं.	नाम	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नति के पश्चात् ग्रेड	पदोन्नति की तिथि
	(सर्व/श्री)			
1.	पदमाजा (सुश्री)	भा.वि. से के जे.ए.जी	भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-IV	01.01.2013
2.	एल सावित्री (सुश्री)	भा.वि. से के जे.ए.जी	भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-IV	01.01.2013
3.	सुशील कुमार सिंघल	भा.वि. से के जे.ए.जी	भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-IV	01.01.2013
4.	विमल सैगल	भा.वि. से के जे.ए.जी	भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-IV	01.01.2013
5.	विनोद के जेकब	भा.वि. से के जे.ए.जी	भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-IV	01.01.2013
6.	नामग्या सी. खम्पा (सुश्री)	भा.वि. से के जे.ए.जी	भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-IV	01.01.2013
7.	योजना पटेल (सुश्री)	भा.वि. से के जे.ए.जी	भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-IV	01.01.2013
8.	बी. श्याम	भा.वि. से के जे.ए.जी	भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-IV	01.01.2013
9.	एक्विनो विमल	भा.वि. से के जे.ए.जी	भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-IV	01.01.2013
10.	मनोज कुमार महापात्रा	भा.वि. से के जे.ए.जी	भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-IV	01.01.2013
11.	परीमल कर	भा.वि. से के जे.ए.जी	भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-IV	01.01.2013
12.	सुभाशीष गोलदार	भा.वि. से के जे.ए.जी	भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-IV	01.01.2013
13.	तारा चंद्र	भा.वि. से के जे.ए.जी	भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-IV	01.01.2013
14.	मदन गोपाल नागपाल	भा.वि. से के जे.ए.जी	भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-IV	01.01.2013
15.	वी. बालाचंद्रन	भा.वि. से के जे.ए.जी	भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-IV	01.01.2013

2. भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-IV में पदोन्नति के पश्चात् ऊपरोलिखित अधिकारियों ने उनके नाम के समक्ष दर्शाई गई तिथि को पूर्वाह्न में भारतीय विदेश सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (जेएजी) के अपने पद को त्याग दिया तथा उसी तिथि को पूर्वाह्न में भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-IV का पदभार संभाल लिया।

कार्तिक पाण्डे, अवर सचिव (एफएसपी)

कार्यालय उप प्रोतोकॉल प्रमुख (एफ)

नई दिल्ली, दिनांक 28 मार्च 2013

सं. डी.-III/460/सीएफ-23/2012--भारत के राष्ट्रपति पणजी में रूसी परिसंघ के मानद कौंसल के रूप में श्री विक्टर एम अल्बुकर्क की नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से मान्यता प्रदान करते हैं।

श्री विक्टर एम अल्बुकर्क के कौंसली क्षेत्राधिकार में गोवा राज्य होगा, जिसका केन्द्र पणजी होगा।

दीपक मिगलानी, उप प्रोतोकॉल प्रमुख (एफ)

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 21 मार्च 2013

सं. 1/2013 (फा सं. ए-12026/01/2013-प्रशा.-I ग) (सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर)--राष्ट्रपति, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, न्यायमूर्ति श्री जी. रघुराम को दिनांक 13 मार्च, 2013 के पूर्वाह्न से तीन वर्षों की अवधि के लिए अथवा 65 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपील अधिकरण (सीस्टेट) में अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करते हैं।

ए. सी. मलिक, अवर सचिव

सं. 2/2013 (फा. सं. 27/31/2013-प्रशा.-I ग)--भारत सरकार, राजस्व विभाग में श्री एस. चन्द्रन, पंजीयक के दिनांक 07.12.2012 को हुए देहान्त को अधिसूचित करते हुए खेद प्रकट करती है।

ए. सी. मलिक, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 28 मार्च 2013

सं. 5/2013 (फा. सं. ए-19013/4/2013.-प्रशा.I क)--व्यय विभाग, सी. ए.एस. के दिनांक 8 जनवरी, 2013 के कार्यालय ज्ञापन सं. ए-12026/8/2010-सीएस और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17.07.2012 तथा 23.11.2012 के कार्यलय ज्ञापन सं. 4/2/2012-सीएस-II (ए) के अनुसरण में और वर्ष 2010 की चयन सूची (वरिष्ठता कोटा) में शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के नियमित आशुलिपिक ग्रेड 'ग' श्री रजनीश को

दिनांक 01.01.2013 (पूर्वाह्न) से राजस्व विभाग में नियमित आधार पर केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 10 अप्रैल 2013

सं. 25 : (फा. सं. ए-19011/3/2013-प्रशा.-I)--राष्ट्रपति, श्रीमती परविंदर सोही बेहुरिया, भारतीय राजस्व सेवा (आयकर : 77038) को दिनांक 04.04.2013 (पूर्वाह्न) से तथा अगले आदेशों तक अथवा उनकी अधिवर्षिता प्राप्त होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, भारत सरकार के विशेष सचिव के स्तर के साथ 80,000/- रु. (नियत) के वेतनमान में वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) में सदस्य के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. श्रीमती परविंदर सोही बेहुरिया, भारतीय राजस्व सेवा (आयकर : 77038) की के. प्र. क. बो. में सदस्य के रूप में नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:-

- (i) भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष श्रीमती परविंदर सोही बेहुरिया द्वारा दाखिल एस एल पी (सिविल) सं. 13110/2013 में अंतिम निर्णय।
- (ii) माननीय गुजरात उच्च न्यायालय, अहमदाबाद के समक्ष श्री दिलीप शिवपुरी द्वारा दाखिल एस सी ए सं. 3627/2013 में अंतिम निर्णय।
- (iii) अंतिम निर्णय, जोकि माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, प्रधान न्यायपीठ, नई दिल्ली के समक्ष श्री एम. के. मिरानी के द्वारा दाखिल मूल आवेदन सं. 105/2013 के निपटान के पश्चात् लिया जाएगा।
- (iv) माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, प्रधान न्यायपीठ, नई दिल्ली के समक्ष श्री जसपाल सिंह द्वारा दाखिल मूल आवेदन सं. 3817/2012 में अंतिम निर्णय।
- (v) माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, अहमदाबाद न्यायपीठ, अहमदाबाद के समक्ष श्री दिलीप शिवपुरी द्वारा दाखिल मूल आवेदन सं. 82/2013 में अंतिम निर्णय।

राजेन्द्र कुमार, अवर सचिव

दिनांक 12 अप्रैल 2013

सं. 26 : (फा. सं. ए-19013/04/2013-प्रशा.-1)--राष्ट्रपति, श्री संजय कुमार, (भारतीय राजस्व सेवा : सी. शु. एवं के.उ.शु.) को दिनांक 05.04.2013 (पूर्वाह्न) से तीन वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, सी.शु. एवं के.उ.शु. बोर्ड, राजस्व विभाग में अवर सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

राजेन्द्र कुमार, अवर सचिव

आर्थिक कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 15 अप्रैल 2013

सं. ए. 19011/4/2013-प्रशा. II--राष्ट्रपति, सुश्री अपर्णा भाटिया (आईईएस: 96) को 9 अप्रैल, 2013 के अपराह्न से पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय में निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

अशोक कुमार, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 22 अप्रैल 2013

सं. ए. 22011/1/2013-प्रशा. Iए--राष्ट्रपति, डॉ. सी. के. जी. नायर (आईईएस: 85) को 1 अप्रैल, 2013 के पूर्वाह्न से वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में सलाहकार के पद पर नियुक्त करते हैं।

ईप्सिता मित्रा, अवर सचिव

वित्तीय सेवाएं विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 12 अप्रैल 2013

सं. 9/1/2011-डीआरटी (पार्ट)--केन्द्रीय सरकार, निम्नलिखित अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति आधार पर उनके नाम के सामने दर्शायी गई अवधि के लिए अथवा अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, विभिन्न ऋण वसूली अपीलीय अधिकरणों (डीआरटी) और ऋण वसूली अधिकरणों (डीआरटी) में पंजीयक एवं वसूली अधिकारी के पद पर पे-बैंड 3 अर्थात् 15,600--39,100/- रु. के वेतनमान में क्रमशः ग्रेड पे 7,600/- रु. तथा 6,600/- रु. में नियुक्त करती है :--

क्र. सं.	चयनित अधिकारी का नाम	पद	तैनाती का स्थान (डीआरटी)	प्रतिनियुक्ति की अवधि	
				से (ता./म./वर्ष)	तक (ता./म./वर्ष)
1	2	3	4	5	6
श्री/श्रीमती					
1.	आर. धनपाल	पंजीयक	कोयम्बतूर	31.12.2012 (पूर्वाह्न)	30.12.2015
2.	आर.एस. मंगापति	पंजीयक	हैदराबाद	19.11.2012 (पूर्वाह्न)	18.11.2015
3.	दीपक कुमार	पंजीयक	पटना	27.11.2012 (पूर्वाह्न)	26.11.2015
4.	तारा चन्द कुमावत	पंजीयक	चण्डीगढ़-II	03.12.2012 (पूर्वाह्न)	02.12.2015
5.	बी.एन. झा	पंजीयक	मुम्बई-I	07.11.2012 (पूर्वाह्न)	04.02.2015
6.	सतेन्द्र कुमार गोयल	पंजीयक	जयपुर	03.01.2013 (पूर्वाह्न)	02.01.2016

1	2	3	4	5	6
श्री/श्रीमती					
7.	डी.के. रंजन	पंजीयक	नागपुर	29.01.2013	28.01.2016 (पूर्वाह्न)
8.	बी.पी. सिंह	पंजीयक	डीआरएटी, इलाहाबाद	03.12.2012	02.12.2015 (पूर्वाह्न)
9.	विलास एन. काने	पंजीयक	डीआरएटी, मुम्बई	26.11.2012	25.11.2015 (पूर्वाह्न)
10.	ए.के. सहगल	वसूली अधिकारी	चण्डीगढ़-I	06.08.2012	05.08.2015 (पूर्वाह्न)

राजीव शर्मा, अवर सचिव

विनिवेश विभाग

नई दिल्ली-110003, दिनांक 30 अप्रैल 2013

सं. 6/1/2013-प्रशा.--श्री वी.एन. गाबा, उप सचिव, विनिवेश विभाग को सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त होने पर 30 अप्रैल, 2013 के अपराह्न से भारत सरकार की सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है।

आशीष कुमार, अवर सचिव

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 10 अप्रैल 2013

सं. ए-19011/801/2013-स्थापना-I--राष्ट्रपति, सुश्री कुसुमजीत सिधू, आईईएस (पीबी : 79) को 10 अप्रैल, 2013 के अपराह्न से अगले आदेश तक, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार के रूप में नियुक्त करते हैं।

एल. के. शर्मा, अवर सचिव

दिनांक 18 अप्रैल 2013

ए. ए-12022/1/2013-स्थापना-I--राष्ट्रपति, श्रीमती गौरी करोल, आईए एवं एस (1998) को 11 अप्रैल, 2013 के पूर्वाह्न से पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले होगा, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

एल. के. शर्मा, अवर सचिव

कोयला मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 अप्रैल 2013

सं. 12/2/2013-एसओ--राष्ट्रपति, श्री अनुराग कपिल, आईआरएस (1999) को 25 अप्रैल, 2013 (पूर्वाह्न) से चार वर्षों की अवधि के लिए

अथवा अगले आदेशों तक, इसमें से जो भी पहले हो, कोयला मंत्रालय में भारत सरकार के उप-सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

एस. के. शाही, निदेशक

इस्पात मंत्रालय

नई दिल्ली-110107, दिनांक 01 मार्च 2013

सं. 11(39)/2012-स्थापना--इस्पात मंत्रालय में अनुभाग अधिकारी के रूप में कार्यरत श्रीमती अन्नपूर्णा सिंह, जो सीएसएस संवर्ग की अधिकारी हैं, अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 28.02.2012 (पूर्वाह्न) को सेवानिवृत्त हो गई हैं।

एच. के. वधवा, अवर सचिव

नई दिल्ली-110107, दिनांक 5 अप्रैल 2013

सं. 11(41)/2012-स्थापना--इस्पात मंत्रालय में अनुभाग अधिकारी के रूप में कार्यरत श्रीमती शशी बाला वर्मा, जो सीएसएस संवर्ग की अधिकारी हैं, अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31.03.2013 (अपराह्न) को सेवानिवृत्त हो गई हैं।

अरविंद मुखर्जी, अवर सचिव

सं. 11(42)/2012-स्थापना--इस्पात मंत्रालय में निजी सचिव के रूप में कार्यरत श्रीमती वीना सचदेव, जो सीएसएस संवर्ग की अधिकारी हैं, अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31.03.2013 (अपराह्न) को सेवानिवृत्त हो गई हैं।

अरविंद मुखर्जी, अवर सचिव

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 17 अप्रैल 2013

सं. ए-18011/161/2013-स्था.--राष्ट्रपति, श्री सुरेन्द्र नाथ त्रिपाठी, भा.प्र.से. (ओडिशा: 1985) को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में दिनांक 15.04.2013 के अपराह्न से 5 वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

एल. हौकिप, उप सचिव

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

नई दिल्ली-110049, दिनांक 9 अप्रैल 2013

सं. ए-19011/2/2013-स्था.I--राष्ट्रपति ने श्री गिरीश चंद, नियमित अवर सचिव ग्रेड-I (सीएसएल सं. 5504) को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में कार्यभार संभालने की तारीख से प्रारंभ में एक वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक जो भी पहले हो संशोधित वेतन संरचना पीबी-3, 15,600--39,100/- + ग्रेड वेतन 7,600/- रु. में तदर्थ आधार पर उप सचिव के पद पर नियुक्त किया है।

2. श्री गिरीश चंद, 04.04.2013 के पूर्वाह्न से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में उप सचिव के पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

संजय बाजपेई, अवर सचिव

दिनांक 30 अप्रैल 2013

सं. ए-19011/11/2011-प्रशा.--श्री राकेश कक्कड़, भा.प्र.से. (तमिलनाडु : 77), सचिव, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 30 अप्रैल, 2013 से सरकारी सेवा से कार्यमुक्त हो गए हैं।

संजय बाजपेई, अवर सचिव

दिनांक 1 मई 2013

सं. ए-19011/5/2013-स्था.I--राष्ट्रपति ने श्री सिराज हुसैन, भा.प्र.से. (यूपी. : 79) को सचिव, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के रूप में नियुक्त किया है।

2. श्री सिराज हुसैन, भा.प्र.से. (यूपी : 79) ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में सचिव के पद पर दिनांक 01 मई, 2013 के पूर्वाह्न से कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

संजय बाजपेई, अवर सचिव

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 18 अप्रैल 2013

सं. ए-38012/1/2013-स्था.1--खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अवर सचिव श्री गुलदेव सिंह पटियाल अधिवर्षिता की आयु होने पर 30 अप्रैल, 2013 को अपराह्न से सेवानिवृत्त हो जाएंगे।

अरूण कुमार सिंह, अवर सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली-110011, दिनांक 23 अप्रैल 2013

सं. ए. 12025/154/2009-सी.एच.एस.I--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. देवीदास लक्ष्मण माटे को दिनांक 14.07.2010 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक पीबी-3 के वेतनमान 15,600--39,100/- + 5,400/- रु. ग्रेड वेतन में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थायी रूप से नियुक्त करते हैं। डॉ. देवीदास लक्ष्मण माटे को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, दिल्ली के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात किया जाता है। डॉ. देवीदास लक्ष्मण माटे नियुक्ति की तारीख से 2 वर्षों तक परिवीक्षा पर रहेंगे।

एम. के. शरवर, अवर सचिव

दिनांक 1 मई 2013

सं. ए. 12025/97/2012-सीएचएस-I--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. अनामिका कुमारी को दिनांक 23 जुलाई 2012 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक पीबी-3 के वेतनमान (15,600--39,100/- + 5,400/- रु. ग्रेड वेतन) में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं। डॉ. अनामिका कुमारी को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है। डॉ. अनामिका कुमारी नियुक्ति की तारीख से 2 वर्षों तक परिवीक्षा पर रहेंगी।

एम. के. शरवर, अवर सचिव

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 17 अप्रैल 2013

सं. ए. 19013/08/2013-स्थापना-I--राष्ट्रपति, श्री एस. सी. कनौजिया (सी.एस.एल. सं. 4968), को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में उप सचिव (तदर्थ) के पद पर दिनांक 16 अप्रैल 2013 से नियुक्त करते हैं।

अनिल कुमार, अवर सचिव

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 12 अप्रैल 2013

सं. ए-19012/4/2013-आ.प्र (फा. सं. 13016/4/2013)-आईईएस में वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामले विभाग के आदेश सं. पी-3/2013 दिनांक 28.03.2013 द्वारा उनकी सीनियर टर्म स्केल (आईईएस) (वरिष्ठ समयमान) (एसटीएस) के लिए पदोन्नति तथा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग में नियुक्ति होने पर सुश्री ममता को 04.04.2013 (पूर्वाह्न) से कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कृषि एवं सहकारिता विभाग में पीबी-3, 15,600--39,100/- + 6,600/- रु. (ग्रेड वेतन) में उप निदेशक के पद पर नियुक्त किया जाता है।

ए. के. अरोड़ा, अवर सचिव

पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 29 अप्रैल 2013

सं. 2-21/2004-मा.(प्रशा.)(खण्ड-II)--राष्ट्रपति, श्री शैलेन्द्र कुमार द्विवेदी, को कृषि मंत्रालय, पशुपालन डेयरी और मत्स्यपालन विभाग के अधीन भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण मुम्बई में 8,000-275-13,500/- रु.

WS-9—52-GI-H-2013 p. 1—65

के वेतनमान (संशोधन-पूर्व) में मात्स्यिकी वैज्ञानिक (सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित अनुसचिवीय) के पद पर 27 फरवरी, 2013 के पूर्वाह्न से अस्थायी क्षमताओं में अगले आदेश होने तक नियुक्त करते हैं।

सुदीपा कोहली, अवर सचिव

सं. 2-38/2010-मा.(प्रशा.)--राष्ट्रपति, श्री प्रदीप होसाहल्ली दिवाकर, को कृषि मंत्रालय, पशुपालन डेयरी और मत्स्यपालन विभाग के अधीन भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण मुम्बई में पे बैंड-3, 5,400/- रु. के ग्रेड वेतन तथा 15,600--39,100/- रु. के वेतनमान में मात्स्यिकी वैज्ञानिक (सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित अनुसचिवीय) के पद पर 13 फरवरी, 2013 के पूर्वाह्न से अस्थायी क्षमताओं में अगले आदेश होने तक नियुक्त करते हैं।

सुदीपा कोहली, अवर सचिव

कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 30 अप्रैल 2013

सं. 6-3/2012-स्थापना--राष्ट्रपति जी, श्री गणेश एस. रामदासी, को माननीय कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) के अपर निजी सचिव (वेतन बैंड-3) (रु. 15,600--39,100/- + 6,600/- रु. ग्रेड वेतन) में 05.11.2012 पूर्वाह्न से कृषि मंत्रालय, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग में मंत्री जी के कार्यकाल के साथ सह-अंतक अथवा उनके अपर निजी सचिव के तौर पर कार्य की समाप्ति अथवा अगले आदेश तक जो भी पहले हो के लिए महाराष्ट्र सरकार से प्रतिनियुक्ति के आधार पर, नियुक्त करते हैं।

रेखा आनन्द, अवर सचिव

ग्रामीण विकास मंत्रालय

(भूमि संसाधन विभाग)

नई दिल्ली-110011, दिनांक 25 अप्रैल 2013

सं. ए-19015/1/2013-प्रशा.--राष्ट्रपति, श्री सतीश कुमार गुप्ता को, 9 अप्रैल, 2013 के अपराह्न से 5,400/- रु. ग्रेड वेतन के साथ पीबी-3 (15,600--39,100/- रु.) में भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय में सहायक निदेशक (रा. भा.) के रूप में नियुक्त करते हैं।

अनूप कुमार, अवर सचिव

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 11 अप्रैल 2013

सं. ए-42018/45/2009-स्था.-I (पार्ट)--सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के केन्द्रीय जनसूचना अधिकारियों की सूची के संबंध में दिनांक 25.02.2013 की समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में और सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5 (1) के अनुसार उनका ब्यौरा इस प्रकार है :--

क्रम सं.	ब्यूरो/ प्रभाग	निम्नलिखित के स्थान पर	अधिकारी का नाम	पदनाम	दूरभाष	संबंधित विषय
1.	अनुसूचित जाति प्रभाग	श्री कन्हैया लाल, अवर सचिव	श्रीमती वतैला रंगसंग	अवर सचिव	23388511	(i) सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1956 और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 तथा (ii) अनुसूचित जातियों की सूचियों के संशोधन से संबंधित सभी मामले।
2.	समाज रक्षा	श्री लाल संगलूर, निदेशक	श्री सुरेन्द्र रावत	उप सचिव	23070095	(i) "मद्यपान एवं पदार्थ (नशीली दवा) दुरुपयोग निवारण संबंधी योजना" और "वृद्ध व्यक्तियों के लिए समेकित कार्यक्रम योजना" के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान की स्वीकृति (ii) वरिष्ठ नागरिक एवं नशीली दवा दुरुपयोग निवारण से संबंधित नीतिगत मामले (iii) राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान के प्रशासनिक मामलों से संबंधित सभी मामले।

2. किसी सीपीआईओ के अवकाश आदि के दौरान उनका संपर्क अधिकारी सीपीआईओ के रूप में कार्य करेगा।

3. संयुक्त सचिव स्तर के संबंधित अधिकारी अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। निःशक्तता कार्य विभाग के मामले में श्री के. वी. एस. राव, निदेशक (डीडी) अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।

दयानिधि जोशी, अवर सचिव

दिनांक 22 अप्रैल 2013

सं. ए-42018/45/2009-स्था.-I (पार्ट)--सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के केन्द्रीय जनसूचना अधिकारियों की सूची के संबंध में दिनांक 11.04.2013 की समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में और सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5 (1) के अनुसार निम्नलिखित अधिकारी केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे :--

ब्यूरो/ प्रभाग	निम्नलिखित के स्थान पर	अधिकारी का नाम	पदनाम	दूरभाष	संबंधित विषय
अनुसूचित जाति प्रभाग	श्रीमती वतैला, रंगसंग, अवर सचिव	श्री वीरेन्द्र कुमार	अवर सचिव	23383668	(i) सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1956 और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 तथा (ii) अनुसूचित जातियों की सूचियों के संशोधन से संबंधित सभी मामले।

2. उपर्युक्त सीपीआईओ के अवकाश आदि के दौरान, उनका संपर्क अधिकारी सीपीआईओ के रूप में कार्य करेगा।

3. संयुक्त सचिव (एससीडी) अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।

दयानिधि जोशी, अवर सचिव

दिनांक 25 अप्रैल 2013

सं. ए-12022/02/2007-स्था.-I--राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.03.2013 के का.ज्ञा.सं. 4/1/2013-ई.ओ.(एसएम-I) के अनुसरण में, श्री अवनीश के. अवस्थी, आईएएस (उ.प्र.: 87) को निःशक्तता कार्य विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में 23.04.2013 के पूर्वाह्न से पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, 37,400--67,000/- रुपए के वेतन बैंड (पीबी-4) + 10,000/- रुपए के ग्रेड वेतन में संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

दयानिधि जोशी, अवर सचिव

सं. ए-19011/03/2011-स्था.-I--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 12.02.2013 के पत्र संख्या 27/6/2013-ईओ (एसएम-I) के अनुसरण में, श्री पंकज जोशी, आईएएस (गुजरात : 89) की सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति की अवधि को 20.06.2013 के बाद से राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय, नई दिल्ली में रक्षा/आन्तरिक सुरक्षा संबंधी 11 माह के 53वें एनडीसी पाठ्यक्रम जो 07 जनवरी, 2013 को प्रारंभ हुआ था, की समाप्ति तक बढ़ाया जाता है।

दयानिधि जोशी, अवर सचिव

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(दूरसंचार विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 8 अप्रैल 2013

सं. 41/24/2010-प्रशा.-II--राष्ट्रपति, दूरसंचार विभाग के बेतार आयोजना एवं समन्वय स्क्व/बेतार अनुश्रवण संगठन में श्री संदीप पटेल (अनुक्रमांक 002934, रैंक सं.-33) अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा, 2011 के उत्तीर्ण अभ्यर्थी को दिनांक 04.03.2013 (पूर्वाह्न) से तदर्थ आधार पर 5,400/- रु. के वेतन ग्रेड सहित 15,600--39,100/- रु. (पीबी-3) के वेतन बैंड में अभियंता के पद पर नियुक्त करते हैं।

निर्मला देव, अवर सचिव

नई दिल्ली-110001, दिनांक 18 अप्रैल 2013

सं. 100/28/2013-एसटीजी-I--अत्यंत खेद के साथ यह अधिसूचित किया जाता है कि श्री के. बालासुब्रमणियन (स्टाफ सं. 08424), भारतीय दूरसंचार सेवा समूह-क के वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारी, जो बीएसएनएल तिरुनेलवेली, एसएसए, तमिलनाडु परिमंडल, चेन्नै में महा प्रबंधक के पद पर कार्यरत थे, का दिनांक 10.02.2013 को निधन हो गया है।

डी. एन. साह, अवर सचिव (एसजीटी)

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

नई दिल्ली-110003, दिनांक 9 अप्रैल 2013

सं. 4(874)/2010-कार्मिक-I--सक्षम प्राधिकारी द्वारा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 48 के अंतर्गत सरकारी सेवा

WS-9—52-GI-H-2013 p. 1—65

से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का नोटिस स्वीकार कर लिए जाने पर श्रीमती जगदीप कौर सेठी, निजी सचिव (कर्मचारी कोड सं. : 484), इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय दिनांक 09.04.2013 के पूर्वाह्न से सरकारी सेवा से निवृत्त हो रही हैं।

गिरीश सहाय, संयुक्त निदेशक

दिनांक 22 अप्रैल 2013

सं. 2(16)/2010-कार्मिक-I--राष्ट्रपति जी ने श्री राज कुमार गोयल, आईएएस (जेके : 90) को इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में दिनांक 22 अप्रैल, 2013 के पूर्वाह्न से 10,000/- रु. ग्रेड वेतन सहित 37,400--67,000/- रु. के वेतनमान (पे बैंड-4) में पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगला आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, डॉ. अनिता भटनागर जैन, आईएएस (यूपी : 85) के स्थान पर संयुक्त सचिव नियुक्त किया है।

गिरीश सहाय, संयुक्त निदेशक

राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र

नई दिल्ली-110003, दिनांक 17 अप्रैल 2013

सं. पीएफ/2705/एनआईसी/2013-प्रशा.-I--भारतीय कृषि सांख्यिकीय अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली में कंप्यूटर अनुप्रयोग प्रभाग, के प्रधान के रूप में चयन के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति एतद्द्वारा डॉ. अंजनी कुमार चौबे, कर्मचारी कोड सं. 2705 का रा.सू.वि. केन्द्र मुख्यालय नई दिल्ली में वैज्ञानिक 'एफ' के पद से दिनांक 22.01.2013 की पूर्वाह्न से स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति स्वीकार की जाती है और उन्हें उसी दिन से सेवा से कार्यमुक्त किया जाता है।

यह दिनांक 21.01.2013 की समसंख्यक पूर्व अधिसूचना के अधिक्रमण में जारी किया जा रहा है।

जी. एन. कालिया, उप निदेशक (प्रशा.-I)

रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 10 अप्रैल 2013

सं. ईआरबी-1/2013/2/15--राष्ट्रपति, श्री अरविन्द खरे, एसएजी/आईआरएसएमई को 28.01.2013 के पूर्वाह्न से एच ए ग्रेड में पदोन्नत होने पर सलाहकार (उत्पादन इकाईयों), रेलवे बोर्ड के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

एच. के. जग्गी, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

दिनांक 18 अप्रैल 2013

सं. ई(जी.पी.)/2011/3/3--राष्ट्रपति महोदय, भारतीय रेलों के सिविल इंजीनियरिंग विभाग के निम्नलिखित 2 ग्रुप-बी अधिकारियों जो कि निम्न

दर्शाये गये रेलों से हैं, की 11.12.2012 से भारतीय रेल सिविल इंजीनियरी सेवा (आई.आर.एस.ई.) के ग्रुप-ए/कनिष्ठ वेतनमान में सहर्ष नियुक्त करते हैं :--

2011-2012 के लिए पैनल

क्र.सं.	नाम	रेलवे
1.	पुलिन कुमार दास (अ.जा.) (अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)	पूर्वो.सी.रे.
2.	सुभाष चन्द्र (अ.जा.) (अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)	उ.रे.
एच. के. जग्गी, सचिव (रेलवे बोर्ड)		

सं. ईआरबी-1/2010/10/4--रेलवे बोर्ड के निम्नलिखित अधिकारी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर 31.03.2013 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गए हैं :--

- | | | |
|-------|----------------------------|-------------------------|
| (i) | श्री ए. के. गुप्ता, | अपर सदस्य (निर्माण) |
| (ii) | श्री राज कुमार, | अपर सदस्य (बिजली) |
| (iii) | श्री आर. विजय मोहन, | अपर सदस्य (यांत्रिक) |
| (iv) | श्रीमती बिमला सेठ, | वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव |
| (v) | श्री रमेश टिग्गा, | उप निदेशक |
| (vi) | श्रीमती एस. पी. कौर नन्दा, | अनुभाग अधिकारी |
- एच. के. जग्गी, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

दिनांक 22 अप्रैल 2013

सं. ई(जी.पी.)2010/3/17--राष्ट्रपति महोदय, भारतीय रेल के रेल सुरक्षा बल के निम्नलिखित 53 अधिकारियों की भारतीय रेल सुरक्षा बल के ग्रुप 'ए' के कनिष्ठ वेतनमान में 04.02.2013 के सहायक सुरक्षा आयुक्त के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं :--

2009 के लिए पैनल

क्र. सं.	नाम
1	2
सर्वश्री	
1.	एस. पी. वशिष्ठ
2.	वी. पलानीसानी
3.	जी. नित्यानन्द
4.	आर. यू. कुलसांगे (अ.ज.जा.)
5.	देवी चरण (अ.जा.) (अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नत)

1	2
6.	टी. एस. सर्वानाकुमार
7.	के. एम. सुकुमारन
8.	आई. जोन्स
9.	पी. नटराजन
10.	श्रीराम यादव
11.	नरेन्द्र कुमार यादव
12.	उदय राज सिंह
13.	लालजी भारती (अ.जा.)
14.	नरेश कुमार बवेजा
15.	अशोक कुमार जैन
16.	आर. एन. यादव
17.	सुरेश बाबू
18.	राकेश कुमार शर्मा
19.	अजय सिंह जायसवाल
20.	सुरेश कुमार (अ.जा.)
21.	सूर्य पाल सिंह
22.	रमेश चन्द्र (अ.जा.) (अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नत)
23.	एस. एस. तिवारी
24.	मोह. इशियाक
25.	डी. एन. त्रिपाठी
26.	राजकुमार सिंह

2010 के लिए पैनल

- | | |
|----|--|
| 1. | जी. एलिशा (अ.जा.) |
| 2. | मोह. नईम |
| 3. | एच. एम. तिवारी |
| 4. | राम स्वार्थ प्रसाद |
| 5. | बसन्त सिंह (अ.जा.)
(अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नत) |
| 6. | पनी बारो (अ.ज.जा.)
(अ.ज.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नत) |
| 7. | हेमंक कुमार माथुर |
| 8. | शंकर राम (अ.जा.) |
| 9. | वसन्त फकरूजी माडवी (अ.ज.जा.)
(अ.ज.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नत) |

2011 के लिए पैनल

1	2
1.	राजा शंकर तिवारी
2.	असीम कुमार विश्वास (अ.जा.)
3.	अधीर चन्द दास (अ.जा.)
4.	प्रफुल्ल कुमार मानसिंह
5.	फिलिप जयकुमार
6.	शिवम
7.	देवेश्वर सैकिया (अ.ज.जा.) (अ.ज.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नत)

2012 के लिए पैनल

1.	साई चन्द्रशेखर सिंह
2.	मुथर मोहीद्दीन
3.	आर. दूरईराज
4.	एस. धनुषकोडी
5.	डी.जे.डी. संत कुमार
6.	वाई. जय कुमार
7.	वी. आनन्दराज (अ.जा.) (अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नत)
8.	राजा राम (अ.जा.) (अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नत)
9.	राम सिंह (अ.जा.) (अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नत)
10.	एन. पद्मनाभन
11.	वी. एस. मानिकवासगम

एच. के. जगगी, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 22 अप्रैल 2013

सं. ए-12023/1/2012-ई-1--राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (स्थापना अधिकारी का कार्यालय) का. ज्ञा. सं. 25/7/2009-ईओ (एमएम-1) दिनांक 06.03.2013 के अनुसरण में, श्री पी. आनंद कुमार, भारतीय राजस्व सेवा (सी एण्ड सीई:97) को वेतन बैंड-4, 37,400--67,000/- रुपये के और 8,700/- रुपये के ग्रेड वेतन में निदेशक स्तर पर लेटर शिफ्ट आधार पर दिनांक 01.11.2012 (पूर्वाह्न) से और निजी सचिव/ओएसडी के रूप में 5 वर्ष की उनके कार्यकाल की शेष अवधि अर्थात् 26.08.2014 तक अथवा मंत्रीजी के साथ सहकालिक आधार पर अथवा जब तक वे मंत्री जी के ओएसडी के रूप में कार्य करते

रहेंगे अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, माननीय राज्य मंत्री, सड़क परिवहन और राजमार्ग (श्री सर्वे सत्यनारायण) के विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी) के रूप में नियुक्त करते हैं।

एच. आर. मीणा, अवर सचिव

सं. ए-19011/6/2010-ई-1--राष्ट्रपति, आर्थिक कार्य विभाग के दिनांक 28.03.2013 के कार्यालय आदेश सं. पी-3/2013 (सं. 13016/4/2013-आईईएस) के अनुसरण में, श्री सुब्रत कुमार प्रधान, भारतीय आर्थिक सेवा के अधिकारी की वरिष्ठ टाइम स्केल (एसटीएस) में नियमित पदोन्नति पर वेतन बैंड-3, 15,600--39,100/- रुपये के और 6,600/- रुपये के ग्रेड वेतन में (पूर्वाह्न) से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में उप निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

एच. आर. मीणा, अवर सचिव

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 10 अप्रैल 2013

सं. 15/2013 (फा.सं. 5/7/2009-प्रशा.)--राष्ट्रपति, श्री वाई. के. शर्मा को, उनका नाम वर्ष 2010 की चयन सूची हेतु सीएसएसएस के निजी सचिव ग्रेड की चयन सूची में शामिल होने और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा उनके दिनांक 17 जुलाई, 2012 के कार्यालय ज्ञापन सं. 4/2/2012-सीएस-II (ए) के तहत जोनिंग स्कीम के अंतर्गत उन्हें जल संसाधन मंत्रालय में नामित करने के फलस्वरूप, जल संसाधन मंत्रालय के सीएसएसएस संवर्ग में वेतन बैंड-2 (9,300--34,800/- रु. + ग्रेड वेतन 4,800/- रु.) में दिनांक 31.03.2013 (अपराह्न) से नियमित आधार पर निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

एल. पी. शर्मा, अवर सचिव

सं. 16/2013 (फा.सं. 5/7/2009-प्रशा.)--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 23 नवम्बर, 2012 के कार्यालय ज्ञापन सं. 4/2/2012-सीएस-II (ए) के तहत सीएसएसएस की वर्ष 2010 की निजी सचिव की चयन सूची में नाम शामिल होने के फलस्वरूप, राष्ट्रपति, निम्नलिखित वैयक्तिक सहायकों/निजी सचिवों (तदर्थ) को उनके नाम के सामने उल्लिखित तारीखों से जल संसाधन मंत्रालय के सीएसएसएस संवर्ग में वेतन बैंड-2 (9,300--34,800/- रु. + ग्रेड वेतन 4,800/- रु.) के वेतनमान में नियमित आधार पर निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं :-

क्र. सं.	नाम	कार्यभार ग्रहण की तारीख
1.	श्रीमती सुचिता बंगा	22.01.2013 (पूर्वाह्न)
2.	श्रीमती शशि चड्ढा	08.02.2013 (अपराह्न)
3.	श्री रणबीर सिंह	28.02.2013 (अपराह्न)

एल. पी. शर्मा, अवर सचिव

शहरी विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 9 अप्रैल 2013

नई दिल्ली, दिनांक 10 अप्रैल 2013

सं. ए-22012/3/2013-प्रशा.-I--राष्ट्रपति द्वारा श्री सुशील कुमार, आईएएस (यूपी:82), वर्तमान में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत को दिनांक 13.03.2013 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय में उनके द्वारा धारित पद का अस्थायी आधार पर उन्नयन करके स्व-स्थाने आधार पर अपर सचिव के ग्रेड में नियुक्त किया जाता है।

आई. एम. खान, अवर सचिव

सं. ए-22012/1/2013-प्रशा.-I--राष्ट्रपति द्वारा सीएसएस के ग्रेड-I (अवर सचिव) के श्री कन्हैया लाल (जन्म तिथि : 07.01.1958) को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 07.03.2013 के आदेश सं. 4/2/2013-सीएस-I(डी) के अनुसार शहरी विकास मंत्रालय के संवर्ग में प्रारम्भ में पूर्णतया तदर्थ आधार पर एक वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक इनमें जो भी पहले हो, दिनांक 01.04.2013 (पूर्वाह्न) से 15,600--39,100/- के पे-बैंड-3 + 7,600/- रु. के ग्रेड वेतन में चयन ग्रेड (उप सचिव) में नियुक्त किया जाता है।

जितेन्द्र कुमार, अवर सचिव (प्रशा.)

RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 22nd April 2013

No. RS.46/2013/33-Perl.—The services of Shri Ajaya Kumar Mallick, Joint Director, who was on deputation as Joint Director (Administration) in the Rajya Sabha Television Channel, stand terminated from the Rajya Sabha Television Channel w.e.f. 22nd April 2013 (AN) and he stands repatriated to the Rajya Sabha Secretariat with immediate effect.

S. RANGARAJAN, Jt. Dir.

The 26th April 2013

No. RS.42/2/2013/35-Perl.—Consequent upon his repatriation from the post of Joint Director (Administration) in the Rajya Sabha Television Channel w.e.f. 22.04.2013 (AN) and after availing EL for 1 day on 23.04.2013 and suffixing 24.04.2014 being a holiday, Shri Ajaya Kumar Mallick, Joint Director, resumed duties in this Secretariat with effect from the forenoon of 25th April 2013.

S. RANGARAJAN, Jt. Dir.

PLANNING COMMISSION

UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA

New Delhi-110001, the 18th April 2013

No. A-19012/66/12-UIDAI—In pursuance of Unique Identification Authority of India, Planning Commission, New Delhi letter No. A-11016/48(Delhi Data Centre)11/UIDAI dated 31st Jan 2013 and O/o the Rehabilitation Council of India, New Delhi Office Order No. 6-32/98-RCI/8185 dated 16.04.13, Shri Munshi Prasad Gupta has assumed the charge of Technical Officer in Delhi Data Centre, Unique Identification Authority of India, Delhi w.e.f. 17.04.13 (FN) in the Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay of Rs. 4,800/- on deputation basis for a period of three years or until further orders whichever is earlier.

RAJESH KUMAR, Dy. Dir. (Estt.)

MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME
IMPLEMENTATION

New Delhi-110001, the 11th April 2013

No. 12014/2/2009-ISS—The President is pleased to appoint the following probationers of the Indian Statistical Service substantively to Junior Time Scale of the Service w.e.f. 15.02.2013:—

Sl. No.	Name
---------	------

1	2
---	---

(S/Shri)

1. Sarvadanand Barnwal

2. Avishek Guha

1	2
---	---

(S/Shri)

3. Sandip Mazumdar

4. Sudeepta Ghosh

5. Jose Kurian

6. Amarendra Pratapsingh

7. Avishek Poddar

8. Badal Kumar

9. Chandrajit Chatterjee

10. Monami Mitra

11. Sonia Sharma

12. Soumya Roy

13. Seema Mishra

14. Patil Shivaji Narasu

15. Rohit Maurya

16. Santosh Kumar Gupta

17. Vishnu Raj G

18. Rajeev Priyadarshi

19. Nidhi Satija

20. Meera AP

21. Kratika Mittal

22. Ziaul Haque

23. Ram Pratap

24. Ram Sajivan

25. Shakti Singh

26. Ramnivas Ranwa

27. Umesh Kumawat

28. Manoj Kumar Verma

29. Achennaro

VENKATRAMANA R HEDGE, Dir.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(LEGISLATIVE DEPARTMENT)

VIDHI SAHITYA PRAKASHAN

New Delhi, the 15th April 2013

No. A.12023/4/2006-VSP(A)—The Secretary is pleased to appoint Shri Trilok Chand, Business Executive, Ministry of Law and Justice, Legislative Department, Vidhi Sahitya Prakashan to officiate as an Assistant Manager on ad-hoc basis in the Pay Band-2, with the Pay Scale of Rs. 9,300—34,800/- plus Grade Pay Rs. 4,600/- for a period of six months

with effect from forenoon of the 11th April, 2013 or till the post is filled up on regular basis, whichever is earlier.

2. The above appointment of Shri Trilok Chand will neither bestow on him any claim for his seniority in the grade of Assistant Manager nor the service rendered by him as such counted for his appointment in the post of Assistant Manager on regular basis.

JEETENDAR CHADHA, Under Secy.

The 23rd April 2013

No. A.12025/1/2009-VSP(A)—The Secretary is pleased to appoint Shri Mahi Pal Singh, Assistant (Technical), Ministry of Law and Justice, Legislative Department, O. L. Wing to officiate as Sub-Editor on ad-hoc basis in the Vidhi Sahitya Prakashan, Legislative Department, Ministry of Law & Justice in the Pay Band-2, with the Scale of pay of Rs. 9,300—34,800/- plus Grade Pay of Rs. 4,600/- for a period of six months w.e.f. 30th April, 2013 to 29th October, 2013 (A.N.) or till the post is filled up on regular basis, whichever is earlier.

2. The above appointment of Shri Mahi Pal Singh will neither bestow on his any claim for his seniority in the grade of Sub-Editor nor the service rendered by him as such counted for his appointment in the post of Sub-Editor on regular basis.

JEETENDAR CHADHA, Under Secy.

DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS

New Delhi, the 22nd April 2013

No. A-12023/21/99-Admn.III(LA)—On attaining the age of superannuation, Shri K. S. S. Prasad Rao, Judicial Member, Income Tax Appellate Tribunal, stands retired from Government Service with effect from the afternoon of 11th March, 2013 in accordance with Rule 11 of the Income Tax Appellate Tribunal Members (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1963.

D. CHOUDHURY, Under Secy.

New Delhi, the 26th April 2013

No. A-32012/7/2012-Admn.I (LA)—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint the following Deputy Legal Advisers (Grade-III of service cadre of Legal Advisers of the Indian Legal Service) as Additional Legal Adviser (Grade-II of service cadre of Legal Advisers of the Indian Legal Service) on regular basis in the Pay Band-4, (Rs. 37,400—67,000/-) plus Grade Pay of Rs. 8,700/- in the Department of Legal Affairs, Ministry of Law & Justice, with effect from the forenoon of the 23rd April, 2013, until further orders:—

(i) Shri S. R. Mishra

(ii) Ms. Zoya Hadke

WS-9—52-GI-E-2011 p. 1—63

(iii) Shri G. C. Mishra

(iv) Shri G. S. Yadav

(v) Shri M. S. Tariq

RAVINDRA KUMAR, Dy. Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 22nd April 2013

No. I-14011/5/2012-IPS.I(I)—In exercise of the provisions contained in sub-regulation (3) of Regulation 7 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the Union Public Service Commission has on 15.04.2013, approved the Select List of the year 2011, prepared by the Selection Committee in its meeting held on 22.02.2013, containing the names of the following State Police Service Officers of Madhya Pradesh, towards filling up 6 substantive vacancies in the Madhya Pradesh Cadre of Indian Police Service :—

Select List 2011

Sl. No.	Name	Date of Birth
	(S/Shri)	
1.	Prem Babu Sharma	22.01.1958
2.	Awadh Kishore Pandey	15.02.1961
3.	R. A. Choubey	01.03.1960
4.	Manohar Singh Verma	09.06.1960
5.	Ravi Shankar Deharia	24.08.1961
6.	Sanjay Tiwary	05.06.1966

PRASHANT NIKAM, Director (Police)

No. I-14011/5/2012-IPS.I(II)—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of Rule 9 of the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954, read with sub-regulation (1) of regulation 9 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the President is pleased to appoint the following members of Madhya Pradesh Police Service to the Indian Police Service (on probation and to allocate them to the Madhya Pradesh Cadre under sub-rule (1) of the rule 5 of the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954 :—

Select List 2011

Sl. No.	Name	Date of Birth
1	2	3
	(S/Shri)	
1.	Prem Babu Sharma	22.01.1958
2.	Awadh Kishore Pandey	15.02.1961

1	2	3
	(S/Shri)	
3.	R. A. Choubey	01.03.1960
4.	Manohar Singh Verma	09.06.1960
5.	Ravi Shankar Deharia	24.08.1961
6.	Sanjay Tiwary	05.06.1966

2. The appointments will take effect from the date of issue of this notification.

PRASHANT NIKAM, Director (Police)

New Delhi-110001, the 15th April 2013

No. I-18011/03/2013-IPS.IV—In exercise of powers conferred by Rule-3A of Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm the following members of the Indian Police Service borne on the cadre of Tamil Nadu with effect from dates mentioned against their names :—

Sl. No.	Name of the IPS Probationers	Date of Confirmation
	(S/Shri)	
1.	Abhinav Kumar	21.12.2011
2.	Ziaul Haque	31.08.2011
3.	Disha Mittal (Ms)	31.08.2011
4.	N. Harish	31.08.2011
5.	C. Vijay Kumar	31.08.2011
6.	M. Durai	31.08.2011
7.	J. Mahesh	21.12.2011
8.	G. Dharmarajan	31.08.2011
9.	Sibi Chakravarthi M. R.	31.08.2011

ARVIND GAUR, Section Officer (IPS-IV)

The 26th April 2013

No. I-14012/01/2012-IPS-IV—Consequent upon her selection for appointment to Indian Revenue Service on the basis of her qualifying the Civil Services Examination, 2011, the President is pleased to accept the technical resignation of Ms. Devangi Swarnkar, IPS Probationer of 64 RR (2011 Batch), belonging to Rajasthan Cadre, who was appointed to the Indian Police Service on the basis of the Civil Services Examination, 2010, from the Indian Police Service with effect from 01.09.2012 (AN).

ARVIND GAUR, Section Officer (IPS-IV)

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS

(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 18th April 2013

No. 13017/08/2012-AIS(I)—In exercise of the powers conferred by Rule 6(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954 and with the concurrence of the Governments of Manipur, Tripura & Uttarakhand the Central Govt. hereby accords approval for extension of inter cadre deputation of Shri M. H. Khan, IAS (MT : 88) from Manipur-Tripura cadre to Uttarakhand cadre for a period of one year.

S. S. SHUKLA, Under Secy.

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 15th January 2013

No. Q/PA-I/06/2013—The President is pleased to appoint the undermentioned officers, presently in Junior Administrative Grade (JAG) of the Indian Foreign Service (IFS) to officiate in Grade IV of the Service with effect from the dates mentioned against their names:—

Sl. No.	Name of the Officer	Present Grade	Grade after Promotion	Date of Promotion
	(S/Shri)			
1.	Padmaja (Ms.)	JAG of IFS	Grade IV of IFS	01.01.2013
2.	L. Savithri (Ms.)	JAG of IFS	Grade IV of IFS	01.01.2013
3.	Sushil Kumar Singhal	JAG of IFS	Grade IV of IFS	01.01.2013
4.	Bimal Saigal	JAG of IFS	Grade IV of IFS	01.01.2013
5.	Vinod K. Jacob	JAG of IFS	Grade IV of IFS	01.01.2013
6.	Namgya C. Khampa (Ms.)	JAG of IFS	Grade IV of IFS	01.01.2013
7.	Yojna Patel (Ms.)	JAG of IFS	Grade IV of IFS	14.01.2013
8.	B. Shyam	JAG of IFS	Grade IV of IFS	01.01.2013
9.	Acquino Vimal	JAG of IFS	Grade IV of IFS	01.01.2013
10.	Manoj Kumar Mohapatra	JAG of IFS	Grade IV of IFS	01.01.2013
11.	Parimal Kar	JAG of IFS	Grade IV of IFS	01.01.2013
12.	Subhashish Goldar	JAG of IFS	Grade IV of IFS	01.01.2013
13.	Tara Chand	JAG of IFS	Grade IV of IFS	01.01.2013
14.	Madan Gopal Nagpal	JAG of IFS	Grade IV of IFS	01.01.2013
15.	P. Balachandran	JAG of IFS	Grade IV of IFS	01.01.2013

2. On promotion to Grade IV of IFS, the above-mentioned officers relinquished charge of their posts in the Junior Administrative Grade (JAG) of IFS in the forenoon of the dates mentioned against their names and assumed charge of their post in Grade IV of IFS with effect from forenoon of the same date.

KARTIK PANDE, Under Secy. (FSP)

OFFICE OF THE DEPUTY CHIEF OF PROTOCOL (F)

New Delhi, the 28th March 2013

No. DIII/460/CF-23/2012—The President of India is pleased to recognize the appointment of Mr. Victor M. Albuquerque as Honorary Consul of the Russian Federation in Panaji with immediate effect.

The consular jurisdiction of Mr. Victor M. Albuquerque comprises the State of Goa with the seat in Panaji.

DEEPAK MIGLANI, Dy. Chief of Protocol (F)

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, the 21st March 2013

No. 01/2013 [F. No. A-12026/01/2013-Ad.1C (CESTAT)]—The President is pleased to appoint Justice Shri G. Raghuram, retired Judge of the Andhra Pradesh High Court, as President of the Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT), with effect from the forenoon of 13th March, 2013 for a period of three years or till he attains the age of 65 years, whichever is earlier.

A. C. MALLICK, Under Secy.

No. 2/2013 (F. No. 27/31/2003-Ad.IC)—The Government of India regrets to notify the death of Shri S. Chandran, Registrar in the Department of Revenue on 07.12.2012.

A. C. MALLICK, Under Secy.

The 26th March 2013

No. 5/2013 (F. No. A-19013/4/2013-Ad.IA)—In pursuance of the Department of Expenditure, CAS's O. M. No. A-12026/8/2010-CAS dated 8th January, 2013 and DOP&T's O. M. No. 4/2/2012-CS.II (A) dated 17.07.2012, 23.11.2012 and on inclusion in the Select List (Seniority Quota) of the year 2010, the President is pleased to appoint Shri Rajneesh, a regular Steno Grade 'C' of CSSS as Private Secretary of CSSS on regular basis in the Department of Revenue with effect from 01.01.2013 (FN).

V. SREEKUMAR, Under Secy.

New Delhi, the 10th April 2013

No. 25 (F. No. A-19011/3/2013-Ad.I)—The President is pleased to appoint Mrs. Parvinder Sohi Behuria, IRS (IT : 77038) as Member of the Central Board of Direct Taxes (CBDT) in the Department of Revenue, Ministry of Finance in the Pay Scale of Rs. 80,000/- (fixed) with the status of Special Secretary to the Government of India with effect from 04.04.2013 (FN) and until further orders or her superannuation, whichever is earlier.

2. The appointment of Mrs. Parvinder Sohi Behuria, IRS (IT : 77038), as Member, CBDT is subject to the following:—

- (i) final outcome of the SLP (Civil) No. 13110/2013 filed by Mrs. Parvinder Sohi Behuria before the Hon'ble Supreme Court of India.
- (ii) final outcome of the SCA No. 3627/2013 filed by Shri Dilip Shivpuri before the Hon'ble High Court of Gujrat, Ahmedabad.
- (iii) final decision which would be taken post disposal of the Original Application No. 105/2013 filed by Shri M. K. Mirani, before the Hon'ble Central Administrative Tribunal, Principal Bench, New Delhi.
- (iv) final outcome of the Original Application No. 3817/2012 filed by Shri Jaspal Singh, before the Hon'ble Central Administrative Tribunal, Principal Bench, New Delhi.
- (v) final result of the Original Application No. 82/2013 filed by Shri Dileep Shivpuri, before the Hon'ble Central Administrative Tribunal, Ahmedabad Bench, Ahmedabad.

RAJINDER KUMAR, Under Secy.

The 12th April 2013

No. 26 (F. No. A-19013/4/2013-Ad.I)—The President is pleased to appoint Shri Sanjay Kumar, (IRS : C&CE) as Under Secretary in the Central Board of Excise & Customs, Department of Revenue for a period of three years w.e.f. 05.04.2013 (FN) or until further orders, whichever is earlier.

RAJINDER KUMAR, Under Secy.

DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

New Delhi, the 15th April 2013

No. A-19011/4/2013-Admn.II—The President is pleased to appoint Ms. Aparna Bhatia, (IES : 96) as Director, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance with effect from the forenoon of 9th April, 2013 for a period of five years or until further orders, whichever event takes place earlier.

ASHOK KUMAR, Under Secy.

New Delhi, the 22nd April 2013

No. A-22011/1/2013-Ad.IA—The President is pleased to appoint Dr. C. K. G. Nair (IES : 85) as Adviser in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs w.e.f. 01.04.2013 (FN).

IPSITA MITRA, Under Secy.

DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES

New Delhi, the 12th April 2013

No. 9/1/2011-DRT (Pt)—The Central Government is pleased to appoint the following officers to the post of Registrar and Recovery Officer in various Debts Recovery Appellate Tribunals (DRATs) and Debts Recovery Tribunals (DRTs) on deputation basis, in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 7,600/- and Rs. 6,600/- respectively for a period mentioned against each or until further orders, whichever is earlier :—

Sl. No.	Name of the officer selected	Post	Posted in (DRT)	Period of deputation	
				From (dd/mm/yy)	To (dd/mm/yy)
1.	(S/Shri/Smt.) R. Dhanpal	Registrar	Coimbatore	31.12.12 (FN)	30.12.2015
2.	R. S. Mangapathy	Registrar	Hyderabad	19.11.12 (FN)	18.11.2015
3.	Deepak Kumar	Registrar	Patna	27.11.12 (FN)	26.11.2015
4.	Tara Chand Kumawat	Registrar	Chandigarh-II	03.12.12 (FN)	02.12.2015
5.	B. N. Jha	Registrar	Mumbai-I	07.11.12 (FN)	04.02.2015
6.	Satendra Kumar Goel	Registrar	Jaipur	03.01.13 (FN)	02.01.2016
7.	D. K. Ranjan	Registrar	Nagpur	29.01.13 (FN)	28.01.2016
8.	V. P. Singh	Registrar	DRAT, Allahabad	03.12.12 (FN)	02.12.2015
9.	Vilas N. Kane	Registrar	DRAT, Mumbai	26.11.12 (FN)	25.11.2015
10.	A. K. Sehgal	Recovery Officer	Chandigarh-I	06.08.12 (FN)	05.08.2015

RAJIV SHARMA, Under Secy.

DEPARTMENT OF DISINVESTMENT

New Delhi-110003, the 30th April 2013

No. 6/1/2013-Admn.—Shri V. N. Gaba, Deputy Secretary, Department of Disinvestment, is hereby retired from the service of the Government of India on attaining the age of superannuation with effect from the afternoon of 30th April, 2013.

ASHISH KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY AND PROMOTION)

New Delhi, the 10th April 2013

No. A-19011/801/2013-E.I.—The President is pleased to appoint Ms. Kusumjit Sidhu, IAS (PB : 79) as Additional Secretary & Financial Adviser in the Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry, with effect from the afternoon of 10th April, 2013, until further orders.

L. K. SHARMA, Under Secy.

The 18th April 2013

No. A-12022/1/2013-E.I.—The President is pleased to appoint Smt. Gauri Karol, IA&AS (1998) as Director in the Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry, with effect from the forenoon of 11th April, 2013, for a period of five years or until further orders, whichever event takes place earlier.

L. K. SHARMA, Under Secy.

MINISTRY OF COAL

New Delhi, the 26th April 2013

No. 12/2/2013-ASO—The President is pleased to appoint Shri Anurag Kapil, IRAS (1999) as Deputy Secretary to the Government of India in the Ministry of Coal for a period of four years with effect from 25th April, 2013 (FN) or until further orders, whichever event takes place earlier.

S. K. SHAHI, Director

MINISTRY OF STEEL

New Delhi-110107, the 1st March 2013

No. 11(39)/2012-Estt.—On attaining the age of superannuation Smt. Annapurna Singh, an Officer of CSS Cadre and working as Section Officer in the Ministry of Steel has retired on 28.02.2012 (A/N).

H. K. WADHWA, Under Secy.

New Delhi-110107, the 5th April 2013

No. 11(41)/2012-Estt.—On attaining the age of superannuation Smt. Shashi Bala Verma, an Officer of CSS Cadre and working as Section Officer in the Ministry of Steel has retired on 31.03.2013 (A/N).

ARVIND MUKHERJEE, Under Secy.

No. 11(42)/2012-Estt.—On attaining the age of superannuation Smt. Veena Sachdeva an Officer of CSSS Cadre and working as Private Secretary in the Ministry of Steel has retired on 31.03.2013 (A/N).

ARVIND MUKHERJEE, Under Secy.

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

New Delhi, the 17th April 2013

No. A-18011/161/2013-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Surendra Nath Tripathi, IAS (OR : 1985) as Joint Secretary in the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises for a period of five years with effect from the afternoon of 15th April, 2013 or until further orders, whichever is earlier.

L. HAOKIP, Deputy Secy.

MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES

New Delhi-110049, the 9th April 2013

No. A-19011/2/2013-E.I.—The President is pleased to appoint Shri Girish Chand, a regular Under Secretary Grade-I (CSL No. 5504) as Deputy Secretary on ad hoc basis in the revised Pay Structure PB-3 : Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay Rs. 7,600/- in the Ministry of Food Processing Industries initially for a period of one year w.e.f. the date of assumption of charge of the post or until further orders, whichever is earlier.

2. Shri Girish Chand has assumed the charge of the post of Deputy Secretary in the Ministry of Food Processing Industries w.e.f. 04.04.2013 (F/N).

SANJAI BAJPAI, Under Secy.

The 30th April 2013

No. A-19011/11/2011-Admn.—On attaining the age of superannuation Shri Rakesh Kacker, IAS (TN : 77) Secretary, Ministry of Food Processing Industries stands relieved from Government Service with effect from the afternoon of 30th April 2013.

SANJAI BAJPAI, Under Secy.

The 1st May 2013

No. A-19011/5/2013-Estt.I.—The President is pleased to appoint Shri Siraj Hussain, IAS (UP : 79) as Secretary Ministry of Food Processing Industries.

2. Shri Siraj Hussain IAS (UP : 79) has assumed the charge of the post of Secretary in the Ministry of Food Processing Industries from the forenoon of 1st May 2013.

SANJAI BAJPAI, Under Secy.

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(DEPARTMENT OF FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION)

New Delhi, the 18th April 2013

No. A-38012/1/2013-E.I.—Shri Guldev Singh Patial, Under Secretary of CSS of the Department of Food & Public Distribution will retire from Government Service on attaining the age of superannuation with effect from the afternoon of 30th April, 2013.

ARUN KUMAR SINGH, Under Secy.

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi-110011, the 23rd April 2013

No. A. 12025/154/2009-CHS.I—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Devidas Laxman Mate in the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the Scale of Pay of PB-3 (Rs. 15,600—39,100/-) + Grade Pay Rs. 5,400/- in a temporary capacity with effect from the forenoon of 14.07.2010 until further orders. Dr. Devidas Laxman Mate is posted as Medical Officer under Ministry of Labour, Delhi. Dr. Devidas Laxman Mate shall be on probation for a period of two years.

M.K. SHARVAR, Under Secy.

The 1st May 2013

No. A. 12025/97/2012-CHS.I—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Anamica Kumari in the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the Scale of Pay of PB-3 (Rs. 15,600—39,100/-) + Grade Pay Rs. 5,400/- in a temporary capacity with effect from the forenoon of 23.07.2012 until further orders. Dr. Anamica Kumari is posted as Medical Officer under Central Government Health Scheme, Delhi. Dr. Anamica Kumari shall be on probation for two years from the date of appointment.

M.K. SHARVAR, Under Secy.

(DEPARTMENT OF HEALTH & FW)

New Delhi, the 17th April 2013

No. A.19013/08/2013-Estt.I—The President is pleased to appoint Shri S. C. Kanojia (CSL No. 4968), as Deputy Secretary (ad hoc) in the Ministry of Health & Family Welfare, with effect from 16th April, 2013.

ANIL KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION)

New Delhi, the 12th April 2013

No. A.19012/4/2013-EA—Consequent upon her promotion to the Senior Time Scale (STS) of IES and posting in the Commission for Agricultural Costs and Prices vide Ministry of Finance, Department of Economic Affairs' Order No. P-3/2013 dated 28.3.2013 in file No. 13016/4/2013-IES, Ms. Mamta is appointed as Deputy Director in PB-3, Rs. 15,600—39,100/- + 6,600/- (Grade Pay), in the Commission for Agricultural Costs and Prices, Department of Agriculture and Cooperation, w.e.f. 04.04.2013 (F.N.).

A. K. ARORA, Under Secy.

DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY, DAIRYING AND FISHERIES

New Delhi, the 29th April 2013

No. 2-21/2004-Fy(Admn)(Vol.II)—The President is pleased to appoint Shri Shailendra Kumar Dwivedi to the post of Fisheries Scientist (General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial) in Fishery Survey of India, Mumbai under the Ministry of Agriculture, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries in the Pay Scale of Rs. 8,000-275-13,500/- (pre-revised) with effect from 27.02.2013 (FN) in a temporary capacity and until further orders.

SUDEEPA KOHLI, Under Secy.

No. 2-38/2010-Fy(Admn)—The President is pleased to appoint Shri Pradeep Hosahalli Divakar to the post of Fisheries Scientist (General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial) in Fishery Survey of

India, Mumbai under the Ministry of Agriculture, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries in the Pay Band (PB-3) of Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay of Rs. 5,400/- with effect from 13.02.2013 (FN) in a temporary capacity and until further orders.

SUDEEPA KOHLI, Under Secy.

DEPARTMENT OF AGRICULTURAL RESEARCH & EDUCATION

New Delhi, the 30th April 2013

No. 6-3/2012-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Ganesh S. Ramdasi as Additional Private Secretary to Minister of State for Agriculture & Food Processing Industries (Shri Tariq Anwar) with effect from the forenoon of 5th November, 2012 in (PB-3) [Rs. 15,600—39,100/- + 6,600/- (GP)] in the Ministry of Agriculture, Department of Agricultural Research & Education on co-terminus basis with the tenure of the Minister or till he ceases to function as Additional Private Secretary to the Minister or until further orders, whichever is the earliest, on deputation from Government of Maharashtra.

REKHA ANAND, Under Secy.

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

(DEPARTMENT OF LAND RESOURCES)

New Delhi-110011, the 25th April 2013

No. A.19015/1/2013-Admn—The President is pleased to appoint Shri Satish Kumar Gupta as Assistant Director (Official Language) with effect from afternoon of 9th April, 2013 in the PB-3 (Rs. 15,600—39,100/-) with Grade Pay of Rs. 5,400/- in the Department of Land Resources, Ministry of Rural Development.

ANOOP KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT

(DEPARTMENT OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT)

New Delhi-110001, the 11th April 2013

No. A-42018/45/2009-Estt.I(Pt.)—In continuation of notification of even number dated 25.02.2013 regarding list of Central Public Information Officers of the M/o Social Justice and Empowerment and in terms of Section 5(1) of the Right to Information Act, 2005, following Officer shall function as CPIO. Their details are as under :—

S. No.	Bureau/ Division	In place of	Name of the Officers	Designation	Telephone No.	Subject matter
1	2	3	4	5	6	7
1.	SCD	Shri Kanhaiya Lal, Under Secretary	Smt. Vataila Rungsung	Under Secretary	23388511	All matters relating to : (i) Protection of Civil Rights Act 1956 & the SCs and the STs (Prevention of Atrocities) Act, 1989 and (ii) Revision of lists of SCs.
2.	SD	Shri Lalsanglur, Director	Shri Surendra Rawat	Deputy Secretary	23070095	All matters pertaining to : (i) Sanction of Grant-in-aid to Non-Governmental Organisations under the "Scheme for Prevention of Alcoholism

1	2	3	4	5	6	7
						and Substance (Drugs)” and “Scheme of Integrated Programme for Older Persons (ii) Policy matters relating to Senior Citizens and Drug Abuse Prevention and (iv) Administrative matters of National Institute of Social Defence

2. During the leave etc. of a CPIO, his/her link officer will function as CPIO.

3. Concerned Officers of the level of Joint Secretary shall function as the Appellate Authorities. In case of D/o Disability Affairs, Shri K. V. S. Rao, Director (DD) shall function as the Appellate Authority.

DAYANIDHI JOSHI, Under Secy.

The 22nd April 2013

No. A-42018/45/2009-Estt.I(Pt.)—In continuation of notification of even number dated 11.04.2013 regarding list of Central Public Information Officers of the M/o Social Justice and Empowerment and in terms of Section 5(1) of the Right to Information Act, 2005, following Officer shall function as CPIO :—

Bureau/ Division	In place of	Name	Designation	Telephone No.	Subject matter
SCD	Smt. Vataila Rungsung, Under Secretary	Shri Veerendra Kumar	Under Secretary	23383668	All matters relating to : (i) Protection of Civil Rights Act, 1956 & the SCs and the STs (Prevention of Atrocities) Act, 1989 and (ii) Revision of lists of SCs.

2. During the leave etc. of a CPIO, his link officer will function as CPIO.

3. Joint Secretary (SCD) shall function as the Appellate Authority.

DAYANIDHI JOSHI, Under Secy.

The 25th April 2013

No. 12022/02/2007-Estt.I—In pursuance of Department of Personnel and Training's letter No. 4/1/2013-EO (SM-I) dated 13.03.2013, the President is pleased to appoint Shri Awanish K. Awasthi, IAS (UP : 87), as Joint Secretary in the Department of Disability Affairs, Ministry of Social Justice & Empowerment, in the Pay Band of Rs. 37,400—67,000/- (PB-4) plus Grade Pay of Rs. 10,000/- w.e.f. the afternoon of 23.04.2013, for a period of five years or until further orders, whichever event takes place earlier.

DAYANIDHI JOSHI, Under Secy.

No. A-19011/03/2011-Estt.I—In pursuance of Department of Personnel and Training's communication No. 27/6/2013-EO (SM-I) dated 12.02.2013, the Central deputation tenure of Shri Pankaj Joshi, IAS (GJ : 89) as Joint Secretary in the Ministry of Social Justice & Empowerment, is extended for a period beyond 20.06.2013 and upto the end of the 11 month long 53rd NDC Course on Defence/Internal Security at the National Defence College, New Delhi which commenced on 7th January, 2013.

DAYANIDHI JOSHI, Under Secy.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS)

New Delhi-110001, the 8th April 2013

No. 41/24/2010-Admn.II—The President is pleased to appoint Shri Sandeep Patel (Roll No. 002934, Rank-33) a qualified candidate of Engineering Service Examination, 2011 to the post of Engineer in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) with the Grade Pay of Rs. 5,400/- in the temporary capacity, in Wireless Planning & Co-ordination Wing/Wireless Monitoring Organisation, Department of Telecommunications with effect from 04.03.2013 (F/N).

NIRMALA DEV, Under Secy.

New Delhi-110001, the 18th April 2013

No. 100/28/2013-STG-I—It is notified with deep regret that Shri K. Balasubramanian (Staff No. 08424), an officer of Senior Administrative Grade of Indian Telecommunications Service Group-A, who was working as GM in BSNL Tirunelveli, SSA, Tamilnadu Circle, Chennai expired on 10.02.2013.

D. N. SAH, Under Secy.

(DEPARTMENT OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY)

New Delhi-110003, the 9th April 2013

No. 4(874)/2010-Pers.I—Consequent upon the acceptance of Notice of Voluntary Retirement from Government Service under Rule-48 of CCS (Pension) Rules, 1972 by the Competent Authority, Smt. Jagdeep Kaur Sethi, Private Secretary (E. Code-484), Department of Electronics and Information Technology, Ministry of Communications and Information Technology retires from Government Service w.e.f. 09.04.2013 (FN).

GIRISH SAHAI, Jt. Dir.

The 22nd April 2013

No. 2(16)/2010-P.I.—The President is pleased to appoint Shri Raj Kumar Goyal, IAS (JK : 90) as Joint Secretary in the Department of Electronics and Information Technology, Ministry of Communications and Information Technology in the Pay Band of Rs. 37,400—67,000/- (PB-4) plus Grade Pay of Rs. 10,000/- w.e.f. the forenoon of 22nd April, 2013 for a period of five years or until further orders, whichever is earlier vice Dr. Anita Bhatnagar Jain, IAS (UP : 85).

GIRISH SAHAI, Jt. Dir.

NATIONAL INFORMATICS CENTRE

New Delhi-110003, the 17th April 2013

No. PF/2705/NIC/2013-Adm.I—Consequent upon his selection as Head, Division of Computer Application in Indian Agricultural Statistics Research Institute, New Delhi, the President is pleased to accept the Voluntary Retirement of Dr. Anjani Kumar Choubey, Emp. Code : 2705 from the post of Scientist-F, NIC-Hqrs., New Delhi from the forenoon of 22.01.2013 and he stands relieved of his duties from the same day.

This issues in supersession of earlier notification of even No. dated 21.01.2013.

G. N. KALIA, Dy. Dir.

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 10th April 2013

No. ERB-I/2013/2/15—The President is pleased to appoint Shri Arvind Khare, SAG/IRSME, as Adviser (Production Units), Railway Board on promotion to HA Grade with effect from forenoon of 28.03.2013.

H. K. JAGGI, Secy.
(Railway Board)

The 18th April 2013

No. E(GP)2011/3/3—The President is pleased to appoint the undermentioned 02 Group 'B' Officers of Civil Engineering, Department of Indian Railways belonging to the Railways as mentioned against each, to Group 'A'/ Junior Scale of Indian Railway Service of Engineers (IRSE) with effect from 11.12.2012 :—

PANEL FOR 2011-12

Sl. No.	Name	Railway
1.	Sh. Pulin Kumar Das (SC) (Promoted against SC vacancy)	NFR
2.	Sh. Subhash Chandra (SC) (Promoted against SC vacancy)	NR

H. K. JAGGI, Secy.
(Railway Board)

No. ERB-I/2010/10/4—The following Officers of Railway Board retired from service on attaining the age of superannuation with effect from afternoon of 31.03.2013 :—

- (i) Shri A. K. Gupta,
Addl. Member (Works).
- (ii) Shri Raj Kumar,
Addl. Member (Elec).
- (iii) Shri R. Vijaya Mohan,
Addl. Member (ME).
- (iv) Smt. Bimla Seth,
Sr. Principal Private Secretary.
- (v) Shri Ramesh Tigga,
Deputy Director.
- (vi) Shri S. P. Kaur Nanda,
Section Officer.

H. K. JAGGI, Secy.
(Railway Board)

The 22nd April 2013

No. E(GP)2010/3/17(RPF)—The President is pleased to appoint the undermentioned 53 Inspector of Railway Protection Force Department of Indian Railways as Assistant

Security Commissioner in Junior Scale of Group 'A' with effect from 04.02.2013 :—

PANEL FOR THE YEAR 2009

Sl. No.	Name
1	2
	(S/Shri)
1.	S. P. Vashist
2.	V. Palanisany
3.	G. Nityanand
4.	R. U. Kulsange (ST)
5.	Devi Charan (SC) (Promoted against SC vacancy)
6.	T. S. Saravanakumar
7.	K. M. Sukumaran
8.	I. Jones
9.	P. Natarajan
10.	Sri Ram Yadav
11.	Narender Kumar Yadav
12.	Udai Raj Singh
13.	Lalji Bhartiya (SC)
14.	Naresh Kumar Baweja
15.	Ashok Kumar Jain
16.	R. N. Yadav
17.	Suresh Babu
18.	Rakesh Kumar Sharma
19.	Ajay Singh Jayaswal
20.	Suresh Kumar (SC)
21.	Suryapal Singh
22.	Ramesh Chandra (SC) (Promoted against SC vacancy)
23.	S. S. Tiwari
24.	Mohd. Istiaque
25.	D. N. Tripathi
26.	Raj Kumar Singh

PANEL FOR THE YEAR 2010

1. G. Elisha (SC)
2. Mohd. Naeem
3. H. M. Tiwari
4. Rama Swarth Prasad
5. Basant Singh (SC)
(Promoted against SC vacancy)

1	2
6.	Pani Baro (ST) (Promoted against ST vacancy)
7.	Hemank Kr. Mathur
8.	Shankar Ram (SC)
9.	Vasanta Fakaraji Madavi (ST) (Promoted against ST vacancy)

PANEL FOR THE YEAR 2011

1. Raja Shankar Tiwari
2. Asim Kumar Biswas (SC)
3. Adhir Chand Das (SC)
4. Prafulla Kumar Mansingh
5. Philip Jayakumar
6. Sivam
7. Debeshwar Saikia (ST)
(Promoted against ST vacancy)

PANEL FOR THE YEAR 2012

1. Sai Chandrasekara Singh
2. Muthar Mohideen
3. R. Durairaj
4. S. Dhanushkodi
5. D. J. D. Santha Kumar
6. Y. Jaya Kumar
7. V. Anandraj (SC)
(Promoted against SC vacancy)
8. Raja Ram (SC)
(Promoted against SC vacancy)
9. Ram Singh (SC)
(Promoted against SC vacancy)
10. N. Padmanabhan
11. V. S. Manickavasagam

H. K. JAGGI, Secy.
(Railway Board)

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS

New Delhi, the 12th March 2013

No. A-12023/1/2012-E-I—In pursuance of Department of Personnel & Training (Office of the Establishment Officer's) O.M. No. 25/7/2009-EO(MM-I) dated 06.03.2013 the President is pleased to appoint Shri P. Anand Kumar, IRS (C&CE : 97)

as Officer on Special Duty (OSD) to Hon'ble Minister of State for Road Transport & Highways (Shri Sarvey Sathyanarayana) at Director level in the Pay Band-4 Rs. 37,400—67,000/- + 8,700/- Grade Pay on later shift basis w.e.f. 01.11.2012 (F.N.) and for balance period of his tenure of five years as PS/OSD i.e. upto 26.08.2014 or on co-terminus basis with the Minister or till he ceases to function as OSD to the Minister or until further orders, whichever occurs at the earliest.

H. R. MEENA, Under Secy.

The 10th April 2013

No. A-19011/6/2010-E-I—In pursuance of Department of Economic Affairs Office Order (No. P-3/2013(No. 13016/4/2013--IES) dated 28.03.2013, the President is pleased to appoint Shri Subrat Kumar Pradhan, an officer of Indian Economic Service as Deputy Director in the Ministry of Road Transport & Highways on his regular promotion to the Senior Time Scale (STS) in the Pay Band-3, Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay of Rs. 6,600/- w.e.f. 01.04.2013 (Forenoon).

H. R. MEENA, Under Secy.

MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 10th April 2013

No. 15/2013 (F. No. 5/7/2009-Admn.)—Consequent upon his inclusion in the Select List of Private Secretary Grade of CSSS for the Select List year 2010 and his nomination to the Ministry of Water Resources under the joining scheme by the Department of Personnel & Training vide DoPT's O.M. No. 4/2/2012-CS.II(A) dated 17th July, 2012, the President is pleased to appoint Shri Y. K. Sharma as Private Secretary on regular basis in the Pay Band-2 (Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,800/-) in the CSSS Cadre of Ministry of Water Resources with effect from 31.01.2013 (AN).

L. P. SHARMA, Under Secy.

No. 16/2013 (F. No. 5/7/2009-Admn.)—Consequent upon their inclusion in the Select List of 2010 of Private Secretary

of CSSS vide DoPT's O.M. No. 4/2/2012-CS.II(A) dated 23rd November, 2012, the President is pleased to appoint the following Personal Assistant/PS (Adhoc) as Private Secretaries on regular basis in CSSS Cadre of Ministry of Water Resources in the Pay Band-2 (Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,800/-) with effect from the dates mentioned against their names :—

Sl. No.	Name	Date of Joining
	(S/Shri/Smt.)	
1.	Suchita Banga	22.01.2013 (FN)
2.	Shashi Chadha	08.02.2013 (AN)
3.	Randhir Singh	28.02.2013 (AN)

L. P. SHARMA, Under Secy.

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

New Delhi, the 10th April 2013

No. A-22012/3/2013-Admn.I—The President is pleased to appoint Shri Susheel Kumar, IAS (UP : 82), presently working as Joint Secretary to the grade of Additional Secretary on in-situ basis by temporarily upgrading the post held by him in the Ministry of Housing & Urban Poverty Alleviation with effect from 13.03.2013 (FN) and until further orders.

I. M. KHAN, Under Secy.

New Delhi, the 9th April 2013

No. A-22012/1/2013-Admn.I—The President is pleased to appoint Shri Kanhaiya Lal (Date of Birth : 07.01.1958) (CSL No. 5502) a Grade-I (Under Secretary) officer of CSS to the Selection Grade (Deputy Secretary) in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay of Rs. 7,600/- with effect from 01.04.2013 (FN) purely on ad hoc basis initially for a period of one year or until further orders whichever is earlier in the cadre of the Ministry of Urban Development in terms of Order No. 4/2/2013-CS-I (D) dated 07.03.2013 of Department of Personnel & Training.

JITENDER KUMAR, Under Secy. (Admn.)

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2013

PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T. FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2013

www.dop.nic.in